



कालीन निर्यात संवर्धन परिषद CARPET EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Set up by Ministry of Textiles, Govt of India)

Registered Office: Shree Jee Complex, Shop No T3, Sharma Market, Harola, NOIDA, (U.P.)

Working Office: 2nd Floor, Rajiv Gandhi Handicrafts Bhawan, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi – 110001

Tel.: +91-11-23364716, 23364717, Website: www.cepc.co.in, E-Mail : info@cepc.co.in

Regional Office: Bypass Road, Hariyawan, Bhadohi, Uttar Pradesh - 221401

Regional Office: IICT Campus, Baghi Ali Mardan Khan, Nowshera, Srinagar - 190011 (J & K)

Website of Ministry of Textiles: www.texmin.nic.in

SANJAY KUMAR

Executive Director-cum-Secretary

CEPC / SAE / MUMBAI-2019 /

दिनांक: 10 जुलाई, 2019

सदस्य निर्यातको के लिए स्वर्णिम अवसर

मुंबई में हस्तनिर्मित कालीन की बिक्री एवं प्रदर्शनी (19 से 22 अक्टूबर 2019) मे भागीदारी के लिए आमंत्रण

अदरणीय सदस्यो,

अपार हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूँ कि, माननीय केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के निर्देश पर, नव नियुक्त अध्यक्ष श्री सिद्ध नाथ सिंह के साथ चर्चा के उपरांत, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद नेहरू सेंटर, वर्ली, मुंबई में हस्तनिर्मित कालीन, रग्स, ड्रगेट्स और अन्य फ्लोर कवरिंग आदि के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। इस प्रदर्शनी के उपरांत हम बैंगलोर, दिल्ली और अन्य मेट्रो शहरों में भी आयोजित करेंगे।

यह एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी होगी जिसमे घर, संस्थानों जैसे होटल, रेस्तरां, और कार्यालयों के लिए उच्च गुणवत्ता और मूल्य वर्धित कालीनों और फर्श कवरिंग के खरीदारों लिए सबसे अच्छी जगह होगी। निर्यातक दशहरा और दिवाली के त्योहारों के बीच इस आयोजन मे अपने बचे हुए स्टॉक को बेचने के उत्तम अवसर का लाभ उठा सकते है ।

प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताएं:

- मुंबई में कालीन और फर्श कवरिंग के लिए एक मात्र विशेष बी-2-बी और बी-2-सी प्रदर्शनी होगी और मुंबई में कालीन उद्योग के लिए सबसे बड़ा व्यापार मंच होने की उम्मीद है।
- परिषद, प्रतिष्ठित पी.आर. एजेंसी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी। जिनके पास 35000 क्रेता, एजेंट, डिजाइनर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, शोरूम मालिक और फिल्म स्टार तथा मुंबई के उच्च घराने का संपर्क सूत्र है। कई सुप्रसिद्ध फिल्मी हस्तीया को आमंत्रित किया जाएगा। एजेंसी के पास संपर्क सूत्र मे से 50% लोगो के शामिल होने के संभावना है।
- परिषद, एफएम रेडियो, टेलीफोन द्वारा तथा सीधा निमंत्रण इत्यादि के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचने के लिए व्यापक प्रबंध की है तथा आउटडोर बिलबोर्ड, प्रिंट विज्ञापन के साथ मुख्य अखबारों में प्रचार भी करेगी।
- प्रमुख खरीदारों, वितरकों, आयातकों, बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं, अनुबंध व्यवसाय के प्रतिनिधियों, डिजाइनरों और सज्जाकारों के साथ सीधे संपर्क का एक बड़ा अवसर।

भागीदारी शुल्क:

भागीदारी शुल्क एक निर्मित स्टैंड के लिए 35000 / - प्रति 12 वर्ग मीटर बूथ + जीएसटी का 18% निर्धारित किया गया है। परिषद 15 जुलाई 2019 तक की गई अग्रिम बुकिंग के लिए 25% छूट प्रदान कर रही है।

हम सदस्य निर्यातकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और 15 जुलाई 2019 तक 26,250 रुपये और 18% जीएसटी के भागीदारी शुल्क के साथ विधिवत भरे हुए फॉर्म को भेजें अन्यथा 15 जुलाई 2019 के बाद इसकी कीमत 35,000 से अधिक 18% जीएसटी हो जाएगी।

निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 है तथा 15 अगस्त 2019 के बाद भागीदारी रद्द करने के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

<p>श्री पी. के. अरोड़ा सहायक निदेशक मोबाइल नंबर: 9350016699, ईमेल: adept@cepc.co.in</p> <p>श्रीमती स्मिता भाटिया, आई टी ओ मोबाइल नंबर: 9540055101 ईमेल: ito@cepc.co.in</p>	<p>कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, द्वितीय तल, राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110001, भारत</p>
--	---

परिषद के सम्मानित सदस्य होने के नाते हम आग्रह करते हैं इस स्वर्णिम अवसर का भरपूर उपयोग करें। हम आपकी समय सीमा के अंदर भागीदारी का अपेक्षा करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

आपके द्वारा भेजी गयी जवाब के आलोक में।

सादर,

संजय कुमार
कार्यकारी निदेशक सह सचिव

[फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें](#)
[प्रदर्शनी स्थल देखने के लिए यहां क्लिक करें](#)